प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-।।, प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन।

सेवा में.

महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय)

लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 2020

विषयः- लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना हेतु पद सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2019/2794/सात-न्याय-2-2019-162जी /2013टीसी, दिनाँक 13 दिसम्बर, 2019 तथा महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-821/Main-B/Admin.(A-3) दिनांक 17.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा गठित कुल 218 नियमित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जिनका विवरण इस शासनादेश के संलग्नक संख्या-1 में अंकित है, के लिये निम्न विवरण के अनुसार कुल 1744 पदों को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

		-
क्र0	पद का नाम/	पदों की
	ग्रेड वेतन / वेतनमान मैट्रिक्स लेवल (वर्तमान संरचना में)	संख्या
1.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	218
	51550-1230-58930- 1380-63070	
2.	आशुलिपिक ग्रेड-।	218
	ग्रेड पे0 4600/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में (44900-142400) मैट्रिक्स लेवल-7	
3.	मुंसरिम, रीडर	218
	ग्रेंड पे0 4200/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में (35400-112400) मैट्रिक्स लेवल-6	
4.	सीनियर असिस्टेन्ट (सूट्स क्लर्क, सेशन क्लर्क, मिसलेनियस क्लर्क)	218
	ग्रेड पे0 2800/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में (29200-92300) मैट्रिक्स लेवल-5	
5.	जूनियर असिस्टेन्ट (कापिस्ट)	218
		(आउटसोर्सिंग
		के माध्यम से)
6.	अर्दली, प्यून	436
		(आउटसोर्सिंग

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		के माध्यम से)
7.	दफ्तरी	218
		(आउटसोर्सिंग
		के माध्यम से)
	योग	1744

- 2- उपर्युक्त तालिका में वर्णित पदों पर जब तक निर्धारित व्यवस्थानुसार तैनाती नहीं होती है तब तक सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को तैनात करते हुए कार्य लिया जायेगा।
- 3- इन पदों के धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राज्ञाओं द्वारा संबंधित पदधारक उसके अधिकारी होंगे।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश तथा 108-दण्ड न्यायालय-03-नियमित अधिष्ठान" की सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-242/दस-2020, दिनांक 25 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह-।।) प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2020/221/सात-न्याय-2-2020, तददिनांक-

1-प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1-महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी/आडिट-2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2-समस्त जनपद न्यायाधीश ,उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0शासन। (तीन प्रतियों में)
- 6-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0शासन।
- 7-वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0शासन।
- 8-न्याय अनुभाग-9/नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
- 9-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार) विशेष सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-2/2020 /221/सात-न्याय-2-2020-62जी/2013 टीसी, दिनांक 25 जनवरी, 2020 का संलग्नक-1

क्र0	जनपद का	अनन्य रूप से जनपद	जनपद में बलात्कार अपराधों के साथ-	जनपद में कुल
सं0	नाम	में गठित पाक्सो	साथ पाक्सो के अपराधों के विचारण	न्यायालयों
		न्यायालयों की संख्या	करने वाले न्यायालयों की संख्या	की संख्या
1	सीतापुर	1	3	4
2	गोरखपुर	1	3	4
3	लखनऊ	1	3	4
4	गाजियाबाद	1	3	4
5	बरेली	1	3	4
6	आगरा	1	3	4
7	मेरठ	1	3	4
8	अलीगढ	1	3	4
9	इलाहाबाद	1	3	4
10	बुलन्दशहर	1	3	4
11	कुशीनगर	1	3	4
12	रायबरेली	1	3	4
13	फिरोजाबाद	1	3	4
14	कौशाम्बी	1	3	4
15	बदायूँ	1	3	4
16	वाराणसी	1	3	4
17	हरदोई	1	3	4
18	लखीमपुर खीरी	1	2	3
19	जौनपुर	1	2	3
20	कानपुर नगर	1	2	3
21	आजमगढ	1	2	3
22	मुजफ्फर नगर	1	2	3
23	शाहजहाँपुर	1	2	3
24	कानपुर देहात	1	2	3
25	प्रतापगढ	1	2	3
26	सुल्तानपुर	1	2	3
27	गौतमबुद्व नगर	1	2	3
28	मैनपुरी	1	2	3
29	उन्नाव	1	2	3
30	मुरादाबाद	1	2	3
31	सहारनपुर	1	2	3
32	फतेहपुर	1	2	3
33	मथुरा	1	2	3
34	महराजगंज	1	2	3
35	हमीरपुर	1	2	3
36	हापुड	1	2	3
37	देवरिया	1	2	3
38	बाराबंकी	1	2	3

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40 गाजीपुर 1 2 3 41 फैजाबाद 1 2 3 42 बस्ती 1 2 3 43 अम्बेडकर नगर 1 2 3 44 मऊ 1 2 3 45 पीलीभीत 1 2 3 46 बहराइच 1 2 3 47 फर्रुखाबाद 1 2 3 47 फ्र्रुखाबाद 1 2 3 48 बलिया 1 2 3 49 संतकबीर नगर 1 2 3 50 एटा 1 2 3 50 एटा 1 2 3 51 बलरामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 53 सिद्धार्व नगर 1 1 2 54 क्रपीज 1 1 2 55 बिप्तानी 1 1 2 56	39	जे0पी0 नगर	1	2	3
41 फैजाबाद 1 2 3 3 42 बस्ती 1 2 3 3 43 अमंडेडर नगर 1 2 3 3 44 मऊ 1 2 3 3 45 पीलीभीत 1 2 3 3 45 पीलीभीत 1 2 3 3 47 फर्झ्बाबाद 1 2 3 3 47 फर्झ्बाबाद 1 2 3 3 48 बलिया 1 2 3 3 49 संतकवीर नगर 1 2 3 3 49 संतकवीर नगर 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6	40		1	2	3
42 बस्ती 1 2 3 43 अम्बेडकर नगर 1 2 3 44 मऊ 1 2 3 45 पीलीभीत 1 2 3 45 पीलीभीत 1 2 3 47 फर्लखावाद 1 2 3 48 बलिया 1 2 3 49 संतकबीर नगर 1 2 3 50 एटा 1 2 3 50 एटा 1 2 3 51 बलरामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 53 सिद्वार नगर 1 1 2 65 हाथरम 1 1 2 55 विजर्गे गापत 1 1 2 56 <td>41</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td>	41		1	2	3
43 अस्बेडकर नगर 1 2 3 44 मऊ 1 2 3 45 पीलीभीत 1 2 3 46 बहराइच 1 2 3 47 फर्डखाबाद 1 2 3 48 बिलया 1 2 3 49 संतकबीर नगर 1 2 3 50 एटा 1 2 3 51 बलरामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 53 सिंद्वार्थ नगर 1 2 3 54 कतीज 1 1 2 3 54 कतीज 1 1 2 3 54 कतीज 1 1 2 3 55 विजनौर 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 <	42		1	2	3
44 मऊ 1 2 3 3 3 45 पीलीभीत 1 2 3 3 3 3 46 बहराइच 1 2 3 3 3 3 47 फर्डबाबाद 1 2 3 3 3 3 48 बिलया 1 2 3 3 3 49 पंतकवीर नगर 1 2 3 3 3 50 एटा 1 2 3 3 50 एटा 1 2 3 3 50 एटा 1 2 3 3 51 बलरामपुर 1 2 3 3 52 रामपुर 1 2 3 3 53 पिहार्य नगर 1 2 2 3 3 53 पिहार्य नगर 1 2 2 3 3 53 पिहार्य नगर 1 1 2 2 3 3 53 पिहार्य नगर 1 1 2 2 3 3 53 पिहार्य नगर 1 1 1 2 2 3 5 5 बिजारे 1 1 1 2 2 5 5 बिजारे 1 1 1 1 2 2 5 5 बिजारे 1 1 1 1 2 2 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5	43		1	2	3
46 बहराइच 1 2 3 47 फर्रखाबाद 1 2 3 48 बलिया 1 2 3 49 मंतकबीर नगर 1 2 3 50 एटा 1 2 3 50 एटा 1 2 3 51 बलतामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 53 सिद्वार्थ नगर 1 2 3 54 कन्नौज 1 1 2 55 बिजनौर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 <t< td=""><td>44</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></t<>	44		1	2	3
47 फर्रेखावाद 1 2 3 3 48 विलया 1 2 3 3 49 संतकवीर नगर 1 2 3 3 50 एटा 1 2 3 3 51 वलरामपुर 1 2 3 3 52 रामपुर 1 2 3 3 53 सिद्धार्थ नगर 1 2 3 3 54 कक्षीज 1 2 3 3 55 सिद्धार्थ नगर 1 2 3 3 55 सिद्धार्थ नगर 1 2 3 3 56 हाथरस 1 2 1 2 57 वागपत 1 1 2 5 56 हाथरस 1 1 1 2 5 5 6 हाथरस 1 1 1 2 5 6 6 हाथरस 1 1 1 2 5 6 6 हाथरस 1 1 1 1 2 5 6 6 हाथरस 1 1 1 1 2 5 6 6 हाथरस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	45	पीलीभीत	1	2	3
48 बलिया 1 2 3 49 संतकवीर नगर 1 2 3 50 एटा 1 2 3 51 बलरामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 54 ककौज 1 1 2 54 ककौज 1 1 2 55 बिजारेर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरेया 1 1 2 63 सोनभा 1 2 2 64 इटाबा 1 1 2 65 मीरजापुर	46	बहराइच	1	2	3
48 बलिया 1 2 3 49 संतकवीर नगर 1 2 3 50 एटा 1 2 3 51 बलरामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 54 ककौज 1 1 2 54 ककौज 1 1 2 55 बिजारेर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरेया 1 1 2 63 सोनभा 1 2 2 64 इटाबा 1 1 2 65 मीरजापुर	47	फर्रुखाबाद	1	2	3
50 एटा 1 2 3 51 बलरामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 53 सिद्वार्थ नगर 1 2 3 54 कन्नौज 1 1 2 55 विजनौर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद 1 1 2 64 स्टाबा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौल	48		1	2	3
51 बलरामपुर 1 2 3 52 रामपुर 1 2 3 53 सिद्वार्थ नगर 1 2 3 54 कलौज 1 1 2 55 बिजनौर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 2 2 61 गोण्डा 1 2 2 62 औरैया 1 2 2 63 सोनभद 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 68 कांशीर	49	संतकबीर नगर	1	2	3
52 रामपुर 1 2 3 53 सिद्वार्थ नगर 1 2 3 54 कत्रौज 1 1 2 55 बिजनौर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 बन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 70 चित्रकूट	50	एटा	1	2	3
52 रामपुर 1 2 3 53 सिद्वार्थ नगर 1 2 3 54 कल्लोज 1 1 2 55 बिजनौर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद 1 1 2 64 इटाबा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्त	51		1	2	3
53 सिद्वार्थ नगर 1 2 3 54 कत्रोज 1 1 2 55 बिजनौर 1 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 1 2 69 थाबस्ती 1 1 2 70 चित्रकुट 1 1 2 71	52		1	2	3
55 बिजनौर 1 2 56 हाथरस 1 1 2 57 बागपत 1 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 1 2 71 शामली 1 1 2 1 2 73 सम्भल 1 1 2 1	53		1	2	3
56 हाथरस 1 2 57 बागपत 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 2 2 61 गोण्डा 1 2 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 <	54	कन्नौज	1	1	2
57 बाँपात 1 2 58 बाँदा 1 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 2 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 2 1 72 ललितपुर 1 1 2 74 भदोही 1 2 1 2 74 <	55	बिजनौर	1	1	2
58 बाँदा 1 2 59 झाँसी 1 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 1 2 72 ललितपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 1 2 (संतरविदास नगर) 1 4 218	56	हाथरस	1	1	2
59 झाँसी 1 2 60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 वन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 1 2 72 लिलितपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 2 (संतरविदास नगर) 74 144 218	57	बागपत	1	1	2
60 जालौन स्थान उरई 1 1 2 61 गोण्डा 1 1 2 62 औरैया 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 2 72 लितपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 2 एतंतरविदास नगर) 74 144 218	58	बाँदा	1	1	2
61 गोण्डा 1 2 62 औरैया 1 2 63 सोनभद्र 1 1 2 64 इटावा 1 1 2 65 मीरजापुर 1 2 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 2 72 ललितपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 2 74 भदोही 1 2 एतंतरविदास नगर) 74 144 218	59	झाँसी	1	1	2
62 औरैया 1 2 63 सोनभद्र 1 2 64 इटावा 1 2 65 मीरजापुर 1 2 66 महोबा 1 2 67 चन्दौली 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 2 2 72 लिलतपुर 1 2 73 सम्भल 1 2 74 भदोही 1 2 एसंतरविदास नगर) 74 144 218	60	जालौन स्थान उरई	1	1	2
63 सोनभद्र 1 2 64 इटावा 1 2 65 मीरजापुर 1 2 66 महोबा 1 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 2 2 72 ललितपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 2 74 भदोही 1 2 (संतरविदास नगर) 74 144 218	61	गोण्डा	1	1	2
64 इटावा 1 2 65 मीरजापुर 1 2 66 महोबा 1 2 67 चन्दौली 1 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 2 1 2 72 लिलतपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 2 (संतरविदास नगर) 74 144 218	62	औरैया	1	1	2
65 मीरजापुर 1 2 66 महोबा 1 2 67 चन्दौली 1 2 68 कांशीराम नगर 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 2 2 72 लिलतपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 2 1 2 74 भदोही 1 1 2 एसंतरविदास नगर) 74 144 218	63	सोनभद्र	1	1	2
66महोबा1267चन्दौली1268कांशीराम नगर1169श्रावस्ती1170चित्रकूट1171शामली1172लिलतपुर1173सम्भल1274भदोही (संतरविदास नगर)12कुल योग74144218	64	इटावा	1	1	2
67चन्दौली1268कांशीराम नगर1269श्रावस्ती1170चित्रकूट1171शामली1272लिलतपुर1273सम्भल1274भदोही (संतरविदास नगर)12कुल योग74144218	65	मीरजापुर	1	1	2
68 कांशीराम नगर 1 2 69 श्रावस्ती 1 1 2 70 चित्रकूट 1 1 2 71 शामली 1 1 2 72 लिलतपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 2 (संतरविदास नगर) 74 144 218	66	महोब <u>ा</u>	1	1	2
69 श्रावस्ती 1 2 70 चित्रकूट 1 2 71 शामली 1 1 2 72 लिलतपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 2 (संतरविदास नगर) 74 144 218	67	चन्दौली	1	1	2
69 श्रावस्ती 1 2 70 चित्रकूट 1 2 71 शामली 1 1 2 72 लिलतपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही 1 2 (संतरविदास नगर) 74 144 218	68	कांशीराम नगर	1	1	2
70 चित्रकूट 1 2 71 शामली 1 2 72 लिलतपुर 1 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही (संतरविदास नगर) 1 2 कुल योग 74 144 218	69	श्रावस्ती	1	1	2
71 शामली 1 2 72 लिलतपुर 1 2 73 सम्भल 1 1 2 74 भदोही (संतरविदास नगर) 1 2 1 2 कुल योग 74 144 218	70	चित्रकूट	1	1	2
73 सम्भल 1 2 74 भदोही (संतरविदास नगर) 1 2 कुल योग 74 144 218	71	शामली	1	1	2
74 भदोही (संतरविदास नगर) 1 2 कुल योग 74 144 218	72	ललितपुर	1	1	2
(संतरविदास नगर) कुल योग 74 144 218	73		1	1	
(संतरविदास नगर) कुल योग 74 144 218	74	भदोही	1	1	2
कुल योग 74 144 218		(संतरविदास नगर)			
	कुल योग 74 144				218

आज्ञा से,

(विपिन कुमार) विशेष सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।